

विद्या - भवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

दिनांक --- 27- 5 - 2020

कक्षा -- द्वितीय

विषय --- हिन्दी

विषय शिक्षिका -- निक्की कुमारी

सुप्रभात बच्चों ,

बच्चों को कल की कक्षा में आपने " अनोखा पुरस्कार " के बारे में जाना। आज हम पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे ।

2) पाठ के अनुसार सही विकल्प पर सही (✓) निशान लगाइए :-

क) भव्या को हमेशा कौन - सा पुरस्कार मिलता था ?

अ) प्रथम

ब) द्वितीय

स) तृतीय

ख) विद्यालय में कौन - सी प्रतियोगिता होनी थी ?

अ)निबंध की

ब)दौड़ की

स)चित्रकला की

ग) यह लड़की ठोकर लगने से गिर गई थी ?

अ)भव्या

ब)नव्या

स)नेहा

3) इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

क) भव्या को क्या पसंद था ?

उत्तर -- भव्या को दौड़ना बहुत पसंद था ।

ख) धारा कितने बजे तक घोषित किए गए थे ?

उत्तर-- दौड़ प्रतियोगिता में दो विजेता घोषित किए गए थे ।

4)उचित विकल्प चुनकर खाली स्थान

भरिए :-

क) सबकी _____ करना भव्या को अच्छा लगता था । (बुराई /सहायता)

ख) नेहा भव्या की _____ थी ।

(सहेली /बहन)

ग) भव्या _____ नेहा के पास गई ।

(जागकर /भागकर)

घ) मुख्य _____ ने दौड़ के दो विजेता घोषित किया । (अध्यापक/ अतिथि)

ड) भव्या को _____ पुरस्कार मिला । (अनोखा / पहला)

5) इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

क) भव्य पर एक किन्हें गर्व था ? और क्यों?

उत्तर-- भव्या के माता-पिता ,पड़ोसी अध्यापक ,अध्यापिका ने सभी उस पर गर्व करते थे ।क्योंकि भव्या बहुत ही अच्छी और सबकी मदद करने वाली लड़की थी।

ख) भव्या ने दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी किस प्रकार की थी ?

उत्तर -- भव्या ने पिछले दो महीने से पढ़ने के साथ-साथ ,सुबह - शाम दौड़ लगाकर इस प्रतियोगिता की तैयारी कर रही थी ।

ग) भव्या ने नेहा की सहायता किस प्रकार की ?

उत्तर -- नेहा को सहारा देकर उठाया, और धीरे-धीरे प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में ले गई। वहाँ नेहा की मरहम पट्टी की गई। इस प्रकार भव्या ने नेहा की सहायता की ।

घ) भव्या ने कौन - सी दौड़ जीती ?

उत्तर-- भव्य ने नेहा की सहायता करके मानवता की दौड़ जीती थी ।

मूल्यपरक प्रश्न

मुसीबत में किसी के काम आना हमारा कर्तव्य है। क्या आपने कभी मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति या प्राणी की सहायता की है ? यदि हाँ तो कब ? लिखिए यदि नहीं तो ऐसा जरूर कीजिए और किस प्रकार कीजिएगा वह लिखिए ।